



ICRA

ICRA Limited

May 27, 2023

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai 400 001, India  
**Scrip Code: 532835**

**National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza,  
Plot no. C/1, G Block  
Bandra-Kurla Complex  
Bandra (East)  
Mumbai - 400 051, India  
**Symbol: ICRA**

Dear Sir/Madam,

**Sub.:- Notice for transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund Authority**

Please find enclosed a copy of the Notice for attention to the members of ICRA Limited (the “**Company**”), in respect of transfer of equity shares to the IEPF, published in the following newspapers on May 27, 2023:

1. Financial Express
2. Jansatta

Please note that the above said Notice has been published pursuant to the provisions of section 124(6) and other relevant provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the “**Act**”) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the “**Rules**”), as amended from time to time.

It may be noted that the Company is required to transfer such shares corresponding to the dividend declared for the financial year 2015-16 in respect of which members have not claimed dividend for seven consecutive years from the said financial year to the IEPF Authority as per the Rules. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually through letters to the concerned members whose equity share(s) is/are liable to be transferred to the IEPF Authority under the said Rules during the financial year 2023-24, for taking appropriate action(s). The Company has uploaded full details of the unclaimed dividend and the shares due for transfer to the IEPF Authority on its website, <https://www.icra.in/>. The members are requested to refer to the Company’s website to verify the details of unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

Pursuant to the Rules, the due date of transfer of shares (in respect of dividend remain unclaimed for seven consecutive years) to the IEPF Authority shall be September 12, 2023.

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)  
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Building No. 8, 2<sup>nd</sup> Floor, Tower A  
DLF Cyber City, Phase II  
Gurugram – 122002, Haryana  
Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001.

Tel.: +91.124 .4545300  
CIN : L749999DL1991PLC042749

Website: [www.icra.in](http://www.icra.in)  
Email: [info@icraindia.com](mailto:info@icraindia.com)  
Helpdesk: +91 9354738909  
Tel. :+91.11.23357940

**RATING**

**RESEARCH**

**INFORMATION**

**Bank of Maharashtra**  
**Head Office: "Lokmangal",**  
 1501, Shivaji Nagar,  
 Pune - 411 005.

**REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)**

Bank of Maharashtra invites sealed tenders for "APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR DEPLOYMENT OF CURRENCY SORTING CHESTS." Prospective bidders may download the tender document of the RFP from Bank's Website [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in).

Pre Bid Meeting is arranged on 01.06.2023. Last Date for submission of RFP is 07.06.2023 Up to 02:00 pm. Technical Bids will be opened at 03:30 pm on 07.06.2023 & Bidders are requested to remain present for the same.

Any further Addenda/Corrigenda/Extension of dates/Clarifications/ Responses to bidder's queries in respect to the above tender shall only be posted on Bank's website [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) and no separate notification will be issued in newspaper.

**Chief Manager, Cash Management Department.**

**SBI**  
 Enterprise & Technology Architecture Department, Global IT Centre,  
 Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400614

**CORRIGENDUM - II**

RFP NO. SBI/GITC/E&TA/2023/2024/977 Dated: 07.04.2023

Please refer RFP for Empanelment of Vendors for Providing Resources for Enterprise Architecture Assessment and Design, dated 07.04.2023. Corrigendum-II is uploaded and can be accessed under Procurement News on the Bank's website <https://www.sbi.co.in>.

Place: Navi Mumbai Deputy General Manager (E & TA)  
 Date: 27.05.2023

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance or advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**JMG CORPORATION LIMITED**  
 Regd. Office: 574, 2nd Floor, Main Road, Chirag Delhi, New Delhi-110017  
 Phone: 011-41834411/41834111, Fax: 011-41834112  
 Website: [www.jmg-corp.in](http://www.jmg-corp.in), E-mail: [info@jmg-corp.in](mailto:info@jmg-corp.in), CIN: L31104DL1989PLC362504

**STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023**  
 (Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Standalone				
		Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from operations	105.32	143.87	-	361.69	224.06
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax	0.04	(11.64)	(105.39)	(32.14)	(160.55)
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	0.04	(11.64)	(105.39)	(32.14)	(160.55)
3	Total Comprehensive Income for the period comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	0.12	(11.64)	(105.31)	(32.06)	(160.47)
4	Equity paid up share capital	578.95	578.95	578.95	578.95	578.95
5	Other Equity as at balance sheet date 31.03.2023				115.72	147.78
6	Earnings per share(Quarterly not annualised) :					
	Basic ( ₹ )	0.001	(0.050)	(0.455)	(0.138)	(0.693)
	Diluted ( ₹ )	0.001	(0.050)	(0.455)	(0.138)	(0.693)

**Notes:**

- The above audited standalone results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 26th May, 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these standalone financial results.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the Year and quarter ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the company website [www.jmg-corp.in](http://www.jmg-corp.in).

For and on behalf of Board of Directors of JMG Corporation Limited  
 Sd/-  
 Atul Kumar Mishra  
 Managing Director  
 Place: New Delhi  
 Date: 26th May 2023

**NCDEX**  
 National Commodity & Derivatives Exchange Limited  
 CIN : U51909MH2003PLC140116  
 Regd Office : Akruvi Corporate Park, 1st Floor, L.B.S. Road, Near G.E.Garden, Kanjurmarg West, Mumbai, Maharashtra 400078

Ph: 022-66406789 | Email: [askus@ncdex.com](mailto:askus@ncdex.com) | Website: [www.ncdex.com](http://www.ncdex.com)

**Extracts of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023**  
 (Rs. in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended 31.03.2023	Quarter ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022	Quarter ended 31.03.2023	Quarter ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from operations	1,121	1,338	4,884	8,060	3,900	3,036	13,557	15,437
2.	Net profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1,394)	(1,162)	(5,418)	(1,856)	(1,207)	(1,273)	(5,268)	(1,688)
3.	Net profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1,394)	(1,162)	(5,905)	(1,856)	(1,217)	(1,273)	(5,801)	(1,688)
4.	Net profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1,030)	(916)	(4,445)	(1,376)	(934)	(1,056)	(4,237)	(1,226)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(1,061)	(951)	(4,579)	(1,417)	(954)	(1,041)	(4,386)	(1,266)
6.	Equity Share Capital	-	-	5,068	5,068	-	-	5,068	5,068
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	30,725	35,558	-	-	42,412	45,536
8.	Earnings Per Share (FV ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic (₹): Not annualised * 2. Diluted (₹): Not annualised *	(2.03)* (2.03)*	(1.81)* (1.81)*	(8.77) (8.77)	(2.72) (2.72)	(1.75)* (1.75)*	(2.00)* (2.00)*	(8.01) (8.01)	(2.24) (2.24)

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results vide Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financials are available on our website [www.ncdex.com](http://www.ncdex.com)
- The above Standalone and Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on May 26, 2023 and approved by the Board of Directors in their meeting held on May 26, 2023.
- # During year ended March 31, 2023, the Exchange had written off the recoverable from shareholders, towards IPO and Capital restructuring related expenses, amounting to Rs. 424 lakhs along with GST recoverable thereon of Rs. 63 lakhs and debited it to the statement of profit & loss account shown as an exceptional item.
- # In case of subsidiary NCDEX e Markets Limited (NeML), NeML has incurred expenses of Rs. 46 Lakhs on newly incorporated Joint Venture during the year ended March 31, 2023. As the approval for commencement of business is awaited from the relevant authority, the said expenses have been shown as an exceptional item.

For and on behalf of the Board of Directors  
 Sd/-  
 Arun Rastle  
 Managing Director & Chief Executive Officer  
 DIN - 08561128

Place: Mumbai  
 Date: May 26, 2023

**ESTER INDUSTRIES LTD.**  
 CIN: L24111UR1985PLC015063  
 Regd. Off.: Sohan Nagar, P.O. Charubeta, Khalima-262308, Distt. Udhham Singh Nagar, (Uttarakhand)  
 Phone: (05943) 250153-57, Fax: (05943) 250158, Website: [www.esterindustries.com](http://www.esterindustries.com), Email: [investor@ester.in](mailto:investor@ester.in)

**EXTRACT OF AN AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023**  
 (Rs. in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Current Quarter ended	Current year ended	Previous year ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Current Quarter ended	Current year ended	Previous year ended	Corresponding 3 months ended in the previous year
		31-Mar-23 (Audited) (Refer Note No. 2)	31-Mar-23 (Audited)	31-Mar-22 (Audited)	31-Mar-22 (Audited) (Refer Note No. 2)	31-Mar-23 (Audited) (Refer Note No. 2)	31-Mar-23 (Audited)	31-Mar-22 (Audited)	31-Mar-22 (Audited) (Refer Note No. 2)
1	Total income from operations	25,567.81	109,469.48	111,905.37	30,524.12	29,332.43	112,655.44	111,905.37	30,519.15
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items) from continuing operations	105.33	4,807.34	12,013.62	3,434.64	(1,962.59)	2,392.55	11,798.90	3,456.04
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items) from continuing operations	105.33	4,807.34	12,013.62	3,434.64	(1,962.59)	2,392.55	11,798.90	3,456.04
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items) from continuing operations	292.82	3,583.00	8,781.63	2,357.02	(1,775.10)	1,168.21	8,566.91	2,378.42
5	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items) from discontinued operations	-	16,324.30	6,821.46	1,221.67	-	16,324.30	6,821.46	1,221.67
6	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items) from discontinued operations	-	16,324.30	6,821.46	1,221.67	-	16,324.30	6,821.46	1,221.67
7	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items) from discontinued operations	-	12,521.43	5,104.50	914.17	-	12,521.43	5,104.50	914.17
8	Total Net profit (Continuing and discontinued operations)	292.82	16,104.43	13,886.13	3,271.19	(1,775.10)	13,689.64	13,671.41	3,292.59
9	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	292.22	16,131.50	13,875.16	3,271.43	(1,782.58)	13,708.86	13,658.34	3,291.12
10	Equity Share Capital	4,169.69	4,169.69	4,169.69	4,169.69	4,169.69	4,169.69	4,169.69	4,169.69
11	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (Other Equity)	-	73271.38	58676.66	-	-	70173.51	58001.43	-
12	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic : (in Rs.) Diluted: (in Rs.)	0.35 19.31 16.65	3.92 (2.13) 16.42	16.39 16.39 3.95					

**NOTES:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Company's website viz. [www.esterindustries.com](http://www.esterindustries.com).
- Figures for the quarter ended 31st March, 2023 and 31st March 2022 are the balancing figures between the audited figures for the full financial year and the reviewed year to date figures upto the third quarter of the respective financial year.

For Ester Industries Limited  
 Sd/-  
 Arvind Sighania  
 Chairman & CEO  
 Place : Gurugram  
 Date : May 26, 2023

**ICRA Limited**  
 Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749  
 Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001  
 Telephone No.: +91 11 23357940, Website: [www.icra.in](http://www.icra.in), Email ID: [investors@icraindia.com](mailto:investors@icraindia.com)

**NOTICE**  
 (For transfer of equity shares of ICRA Limited ("the Company") to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority"))

This Notice is published pursuant to the provisions of section 124(6) and other relevant provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules"), as amended from time to time. The Rules contain the provisions for transfer of equity shares of the Company to IEPF Authority in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more in a prescribed manner.

Members may please note that the Company is required to transfer such shares corresponding to the dividend declared for the financial year 2015-16 in respect of which members have not claimed dividend for seven consecutive years from the said financial year to the IEPF Authority as per the Rules. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually vide letter dated May 17, 2023, to the concerned members whose equity share(s) is/are liable to be transferred to the IEPF Authority under the said Rules during the financial year 2023-24, for taking appropriate action(s). The Company has uploaded full details of the unclaimed dividend and the shares due for transfer to the IEPF Authority on its website at <https://www.icra.in/InvestorRelation/ShowInvestorCommunicationReport?id=590&Title=Corporate%20Announcements&Report=ICRA>. The members are requested to refer to the Company's website to verify the details of unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

In terms of the Rules, the due date of transfer of shares (in respect of dividend remain unclaimed for seven consecutive years) to the IEPF Authority shall be **September 12, 2023**. Further, in terms of the Rules all benefits accruing on such shares viz. bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except the rights issue shall also be credited to the IEPF Authority.

The concerned member(s), whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company shall transfer the shares by way of corporate action through the depositories to the IEPF Authority.

In case no valid claim in respect of equity share(s) is received from the members, the Company shall, with the view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date.

Members may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

In case the members have any queries on the subject matter and/or the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent and/or the Company at the below mentioned address.

Link Intime India Pvt. Ltd.  
 Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2,  
 LSC, C-1 Block, Near Savitri Market,  
 Janakpuri, New Delhi-110058  
 Phone: +91 11 4141 0592 - 94; Fax: +91 11 4141 0591  
 Email: [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in)

ICRA Limited  
 Building No. 8, 2nd Floor, Tower A,  
 DLF Cyber City, Phase II, Gurugram - 122002  
 Phone: +91 124 454300  
 Email: [investors@icraindia.com](mailto:investors@icraindia.com)

For ICRA Limited  
 (S. Shakeb Rahman)  
 Company Secretary & Compliance Officer  
 Place : Gurugram  
 Date : 26/05/2023

**NIDAN LABORATORIES AND HEALTHCARE LIMITED**  
 CIN - L33111MH2000PLC129883  
 Regd Office: SY No. 294/A/H. No. 18, Swapnashilpa, Behind Aarti Apartment, Vartak Road, Virar (w), 401303 Tel.No. +91 8975610000;  
 E-Mail:cs@nidanhealthcare.co.in, Website: [www.nidanhealthcare.co.in](http://www.nidanhealthcare.co.in)

**Statement of Financial Results For the Half And Year Ended 31st March 2023**  
 ₹ In Lacs

Sr. No.	Particulars	Half Year Ended 31-03-2023 (Audited)	Half Year Ended 30-09-2022 (Unaudited)	Half Year Ended 31-03-2022 (Audited)	Year Ended 31-03-2023 (Audited)	Year Ended 31-03-2022 (Audited)
		1	Total Income From Operations	1318.01	1441.51	1352.80
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	178.98	302.18	219.31	481.16	452.04
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	178.98	302.18	219.31	481.16	452.04
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	122.14	231.82	85.92	353.96	266.29
5	Total Comprehensive income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	122.14	231.82	85.92	353.96	266.29
6	Equity Share Capital	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	51.77	5502.07	4676.42	5,553.84	5199.89
8	Earnings Per Share (of Rs 10/-each) (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	0.88 0.88	1.67 1.67	0.62 0.62	2.55 2.55	2.32 2.32

**Note:**

- The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results to filed with National Stock Exchange Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites ([www.nseindia.com/](http://www.nseindia.com/)) and Company's website: [www.nidanhealthcare.co.in](http://www.nidanhealthcare.co.in)

For and on behalf of Board of Directors  
 NIDAN LABORATORIES AND HEALTHCARE LIMITED  
 Sd/-  
 Tejal Anil Jayakar  
 Executive Director  
 DIN:07984686  
 Date : 26-05-2023  
 Place : VIRAR

**WINRO COMMERCIAL (INDIA) LIMITED**  
 CIN : L51226MH1983PLC165499  
 Regd. Office : 209-210, Arcadia Building, 195, Nariman Point, Mumbai - 400 021,  
 Tel. : 022-40198600, Fax : 022-40198650; Website : [www.winrocommercial.com](http://www.winrocommercial.com); Email: [winro.investor@gcvl.in](mailto:winro.investor@gcvl.in)

**Statement of Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023**  
 (Rs. In Lakhs except Sr.no 7)

Sr. No.	Particulars	Standalone		Consolidated			
		Quarter Ended March 31, 2023 (Audited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter Ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter Ended March 31, 2023 (Audited)	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter Ended March 31, 2022 (Audited)
1)	Total Income	(13,013.21)	13,426.79	14,734.35	(13,013.21)	13,426.79	14,734.35
2)	Net profit/ (loss) before Tax #	(13,484.97)	11,826.58	14,400.13	(13,484.97)	11,826.58	14,400.13
3)	Net profit/ (loss) after Tax #	(11,425.76)	9,322.40	12,798.63	(13,811.63)	8,237.79	13,462.71
4)	Total Comprehensive income (Comprising Net Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(12,694.73)	7,440.95	24,991.64	(16,675.49)	6,676.71	14,935.21
5)	Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25
6)	Reserves (Excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance sheet)		1,24,840.51			1,20,666.75	
7)	Earning per share (of Rs 10/- each) (a) Basic (not annualised except year ended) (b) Diluted (not annualised except year ended)	(912.21) (912.21)	744.28* 744.28*	1,021.81 1,021.81	(1,102.69) (1,102.69)	657.69* 657.69*	1,074.83 1,074.83

\* Annualised  
 # The Company does not have Exceptional / Extraordinary items to report for the above periods.

**Notes:**

- The above audited financial results for the quarter and year ended March 31 2023 have been reviewed by the Audit committee and on its recommendation have been approved by the Board of directors at its meeting held on May 26, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, as amended. The full format of the said 'Financial Results' are available on the website of Stock Exchange '[www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).' and on Company's website '[www.winrocommercial.com](http://www.winrocommercial.com).'

For and on behalf of the Board of Directors  
 Sd/-  
 Hetal Khalpada  
 Director  
 DIN : 0005823  
 Dated : May 26, 2023  
 Place : Mumbai

